



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 ज्येष्ठ 1933 (श0)
(सं0 पटना 251) पटना, बृहस्पतिवार, 2 जून 2011

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

1 मार्च 2011

सं० 22/नि0सि0(डिं0)-14-17/2007/226—श्री राकेश कुमार गुप्ता, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, सासाराम, शि0 डिहरी के विरुद्ध सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, सासाराम, शि0 डिहरी के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 में चौसा नहर के 0 कि०मी० से 29.70 कि०मी० के बीच कराये गये मिट्टी कार्य की जाँच उड़नदस्ता अंचल से करायी गयी। उड़नदस्ता द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसका सम्यक समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री राकेश कुमार गुप्ता, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, सासाराम, शि0 डिहरी सम्प्रति अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, सिंचाई प्रमण्डल, तारापुर को आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया।

अतः श्री राकेश कुमार गुप्ता, तत्कालीन सहायक अभियन्ता सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, सासाराम, शि0 डिहरी को आरोप मुक्त करने संबंधी आदेश संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
भरत झा,
सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 251-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>